

जनपद सुलतानपुर

प्रेस नोट संख्या-01 दिनांक- 12.01.2021

सुलतानपुर के थाना कादीपुर पुलिस व सर्विलांस/स्वाट टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 25000 रुपये का इनामिया शातिर लुटेरों के गिरोह के एक सदस्य को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता,

नाम-पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1-भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व0 जगदम्बा सिंह निवासी हमीरपुर थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व समय - 12.01.2021 समय लगभग 03.00 बजे प्रातः

गिरफ्तारी का स्थान- मालापुर नहर पुल मोड सें नागेश्वर धाम रोड पर

बरामदगी-

- 1- एक अदद तमन्चा देशी .315 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोरा
- 2- एक अदद एम आई मोबाईल सिम लगा हुआ।

जनपद सुलतानपुर में घटित हो रही चोरी/लूट की घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर डॉ0 अरविन्द चतुर्वेदी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर श्री शिवराज के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कादीपुर श्री सुरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कादीपुर श्री कृष्ण कुमार मिश्रा व प्रभारी सर्विलांस/ स्वाट श्री अजय प्रताप सिंह यादव के नेतृत्व में चोरों/लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा घटित घटनाओं का साक्ष्य संकलन कर डिजिटल डेटा आदि मदद से अनावरण करने हेतु अथक प्रयास किया जा रहा था।

इस क्रम में दिनांक-12.01.2021 को थाना कादीपुर पुलिस व सर्विलांस/ स्वाट टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से अभिसूचना को विकसित करते हुए शातिर लुटेरों के गिरोह का सदस्य 1- भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व0 जगदम्बा सिंह निवासी हमीरपुर थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर को समय 03.00 बजे, मालापुर नहर पुल मोड नागेश्वर धाम रोड से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी .315 बोर व एक अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा दिनांक-26.10.2020 को समय लगभग 11.35 बजे वादी श्री दुर्गेश शंकर तिवारी पुत्र दयाराम तिवारी निवासी मदनपुर खुर्द थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर से 09 लाख की लूट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कादीपुर पर मु0अ0सं0-474/2020 धारा 392/411/120बी भा0द0वि0 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के उपर पूर्व से ही जनपद के विभिन्न थानो में गम्भीर धाराओं में कई अपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अभ्यस्त लूटेरा है। जो जनपद सुलतानपुर व अन्य जनपदों के शातिर व दुर्दान्त अपराधियों को संरक्षण भी देता है गिरफ्तार अभियुक्त भानू प्रताप सिंह से पूछ ताछ पर अपराध और अपराधियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है जिनका सत्यापन कर गैंग के अन्य सदस्यों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की योजना बनाई गई है।

पूछ ताछ पर अभियुक्त भानू प्रताप सिंह ने गैंग सदस्यों द्वारा निम्न लिखित स्थानों की रेकी कर लूट की योजना बनाना स्वीकर किया।

- 1.जनपद सुलतानपुर थाना दोस्तपुर कस्बे मे बाइक एजेंसी संचालक से लूट करने की योजना
- 2.जनपद सुलतानपुर थाना कादीपुर बजरंगनगर बाजार में सुनार के साथ लूट करने की योजना
- 3.जनपद सुलतानपुर में थाना जयसिंहपुर बिरसिंहपुर बाजार में सुनार के साथ लूट की योजना।
- 4.जनपद सुलतानपुर व प्रतापगढ की सीमा पर स्थित थाना चांदा क्षेत्र के तातोंमुरैनी बाजार में सुनार से कैश व ज्वेलरी लूटने की योजना।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व० जगदम्बा सिंह निवासी हमीरपुर थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर

- 1 मु०अ०सं०- 474/20 धारा 392/411/120 बी भादवि० थाना कादीपुर सुलतानपुर
  - 2-मु०अ०सं०-546/20 धारा 307 भादवि० थाना कादीपुर सुलतानपुर
  - 3- मु०अ०सं०-482/20 धारा 392/411 भादवि० थाना लम्भुआ सुलतानपुर
  - 4- मु०अ०सं०-1085/20 धारा 392/411 भादवि० थाना को० नगर सुलतानपुर
  - 5- मु०अ०सं०-163/20 धारा 392/411 भादवि० थाना करौंदीकला सुलतानपुर
  - 6- मु०अ०सं०-164/20 धारा 392/411 भादवि० थाना करौंदीकला, सुलतानपुर
  - 7 मु०अ०सं०-423/18 धारा 419/420/468/469/471 भादवि० थाना कादीपुर ,सुलतानपुर
  - 8- मु०अ०सं०-424/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 27 साक्ष्य अधि० थानाकादीपुर सुलतानपुर
  - 9- मु०अ०सं०-422/18 धारा 419/420/467/468/471 भादवि० थाना कादीपुर, सुलतानपुर
  - 10- मु०अ०सं०-421/18 धारा 41/411 भादवि० थाना कादीपुर , सुलतानपुर
  - 11 मु०अ०सं०-411/18 धारा 307/506 भादवि० थाना कादीपुर , सुलतानपुर
  - 12- मु०अ०सं०-78/19 धारा 3(1) यूपी० गैंगेस्टर एक्ट थाना कादीपुर ,सुलतानपुर
- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-
- 1.प्र०नि० कृष्ण कुमार मिश्रा थाना कादीपुर सुलतानपुर
  2. उ०नि० अजय प्रताप सिंह प्रभारी सर्विलांस/स्वाट टीम सुलतानपुर
  3. उ०नि० परमात्मा सिंह स्वाट टीम सुलतानपुर
  4. मु०आरक्षी पवनेश कुमार यादव सर्विलांस/स्वाट टीम सुलतानपुर
  5. मु० आरक्षी अनुराग सिंह सर्विलांस टीम सुलतानपुर
  6. मु० आरक्षी निर्भय सिंह स्वाट टीम सुलतानपुर
  7. मु० आरक्षी समरजीत सरोज स्वाट टीम सुलतानपुर
  8. आरक्षी विकास सिंह स्वाट टीम सुलतानपुर
  - 9.आरक्षी तेजभान स्वाट टीम सुलतानपुर
  10. आरक्षी राहुल यादव स्वाट टीम सुलतानपुर
  11. आरक्षी आलोक कुमार थाना कादीपुर सुलतानपुर